



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 ज्येष्ठ 1933 (श0)  
(सं0 पटना 243) पटना, सोमवार, 30 मई 2011

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना

25 मई 2011

सं0 सं0का0-1/वि0प0(नेता विरोध दल)-7-11/2011-999—प्रो0 गुलाम गौस, नेता विरोधी दल, बिहार विधान परिषद, पटना के पत्रांक—आ0का0प0स0-26/2011, दिनांक 29 अप्रैल 2011 के द्वारा प्राप्त सूचना के आलोक में श्री राम विनोद सिंह, पिता—श्री बालेश्वर नाथ सिंह, मुहल्ला—सुल्तानपुर, पोस्ट—दानापुर, जिला—पटना (वाह्य व्यक्ति) को उनके आप्त सचिव के रूप में नियुक्ति को पत्र निर्गत की तिथि 29 अप्रैल 2011 से सर्वथा अस्थायी रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

2. बिहार विधान मंडल नेता विरोधी दल, संसदीय सचिव, सचेतक और सदन नेता (वेतन एवं भत्ते) नियमावली, 2006 के नियम-3 के प्रावधानों के अनुसार मुख्य सचेतक, मुख्य विरोधी दल को राज्य मंत्री के समान वेतन, भत्ते एवं निजी स्टाफ की सुविधाएँ अनुमान्य हैं।

3. इन्हें वित्त विभाग के पत्रांक—7879, दिनांक 21 जुलाई 2010 के आलोक में वेतनमान रु0 9300—34800, ग्रेड वेतन रु0 4800 में प्रारम्भिक प्रक्रम का वैण्ड वेतन रु0 13350+ग्रेड वेतन—4800 कुल रु0 18150 (अठारह हजार एक सौ पचास रु0) के नियत वेतन तथा समय-समय पर अनुमान्य महंगाई भत्ता देय होगा।

4. श्री राम विनोद सिंह (वाह्य व्यक्ति) आप्त सचिव सेवा में नियुक्ति की तिथि से तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक प्रो0 गुलाम गौस, नेता विरोधी दल, बिहार विधान परिषद, पटना अपने पद पर बने रहेंगे। इस बीच भी इनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
नवनीत रंजन तिवारी,  
विशेष कार्य पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 243-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>